


जेट एयरवेज-नरेश गोयल की मुसीबतें नहीं हो रही कम;

भारत से लेकर विदेशों में फैली 538 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक मनी लॉन्डिंग मामले में जांच के तहत जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी की 538 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। यह संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत में स्थित हैं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज (ईडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ मनी लॉन्डिंग जांच में मनी लॉन्डिंग रोकथाम अधिकारियम (पीएमएलए) 2002 के प्रवधानों के तहत 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति अधिकारी रूप से जब्त की है। यह संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत में स्थित हैं।

धन सेधन का यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पती अनीता गोयल फैस्ट और बंगले और वाणिज्यिक परिसर



शामिल है। लंदन, दुबई और भारत के खिलाफ शरों में स्थित ये संपत्तियां जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइज लिमिटेड, नरेश गोयल, उनकी पती अनीता और बंगले के बाहर से अधिकारी जांच की नाम पर हैं।

धन सेधन का यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पती अनीता गोयल

और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई धोखाधड़ी के मामले में दर्ज प्राथमिकी से समाप्त आया है।

ट्रस्ट बनाकर भारत से विदेशों में धन की हेलाफेटी का आरोप

बैंक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें अपेक्षा लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज (ईडिया) लिमिटेड को 848.86 करोड़ रुपये बकाया थे। इसमें पहले रिपोर्ट पर सुनार्वाद के बैंकर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी की 538 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। यह संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत में स्थित हैं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज (ईडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ मनी लॉन्डिंग जांच में मनी लॉन्डिंग रोकथाम अधिकारियम (पीएमएलए) 2002 के प्रवधानों के तहत 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति अधिकारी रूप से जब्त की है। यह संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत में स्थित हैं।

धन सेधन का यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पती अनीता गोयल

भारत में कंपनियों का जाल बनाकर अर्जित की गई अचल संपत्तियां

ईडी ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि गोयल ने मुंबई में उच्च मूल्य की संपत्तियां खरीदी थीं और बाद में उन्हें बेच दिया था। उन्होंने भारत में कंपनियों का एक जाल भी बनाया था जिसके माध्यम से उसने बहुत सारी अचल संपत्तियां अर्जित की गईं। एक अंडिंग रिपोर्ट का हवाला देते हुए, ईडी ने दावा किया है कि जेट एयरवेज (ईडिया) लिमिटेड (जेआईएल) की ओर से लिए गए ऋण का उपयोग फर्नीचर, परिधान और आभूषण जैसी अचल संपत्तियों की खरीदी के लिए किया गया था। गोयल के आवासीय कर्मचारियों के बेतन और उनकी बेटी की एक प्रोडक्शन कंपनी के परिचालन खर्च का भुगतान भी जेआईएल के खातों से किया गया। गोयल को ईडी ने एक सिंतंबर को धन सेधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में मुंबई के आठर रोड जेल में है।

धन सेधन का यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पती अनीता गोयल

सीएम ने किया एलान

पुडुचेरी में अनुसूचित जाति के परिवारों को दिवाली से पहले मिलेंगे एक हजार रुपये



त्योहार के दौरान कपड़े खरीद सकें। पुडुचेरी के 70वें मुक्त दिवस के अवसर पर पुडुचेरी पुलिस द्वारा दिए गए 1,000 रुपये के अंदर ऑनलाइन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और विधायिकों की उपलब्धियों और विधायिकों के स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत लोगों

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में 1,000 रुपये जमा करने का एलान किया ताकि वे दीपावली

के जीवन को बेहतर बनाने का आहान किया।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रामासामी ने बुधवार को केंद्रीय शासित

सुंदरता के लिए यह जानकारियां जरूरी

हर लड़की खूबसूरत दिखना चाहती है। सेहत और सौन्दर्य को बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सारे वक्त बस उसी पर ध्यान दें बल्कि जरूरी यह है कि कम से कम वक्त में भी हम सही पोषण को प्राप्त कर सकें। इस पर सबका हक है लेकिन रोज की भागभाग में हम अपने आपका ख्याल इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि हमें सेहत संबंधी छोटी-छोटी जानकारी भी नहीं होती। आइए जानते हैं कैसे -

आजकल लो-कार्बन डाइट ट्रैड में है। जिसे देखो वही अपने खाने में काबोहाइड्रेट कम करता जा रहा है और प्रोटीन बढ़ाता जाता है, लेकिन आहार विशेषज्ञों ने हमें संतुलित आहार की बात की है इसलिए काबोहाइड्रेट को भी एक निश्चित मात्रा में लेना जरूरी है। लो-कार्बन फूड लेने वाले इस बात का ख्याल रखें कि यह आपके मूड पर नेट्रिटिव प्रभाव डालता है।

कार्बन के कारण ही मांसपेशियों को ग्लाइकोजन मिलती है। जिसमें जिम में वर्कआउट करने की एनर्जी मिलती है। कम कार्बन बढ़ाती डाइट में मस्तिष्क के कार्य को बाधित करती है इसलिए डाइट में काबोहाइड्रेट का होना जरूरी है। लेकिन इसका भी ख्याल रखें कि जो भी कार्बन आप लें उसकी कुल मात्रा का 3 ग्राम फाइबर होना चाहिए।

केले में प्रचुर मात्रा में विटामिन भी पाया जाता है। युवा महिलाओं विशेषक वे युवतियां जो और लोकोन्सर्टिल्स ले रही हैं, को पुरुषों की तुलना में अधिक विटामिन बी-6 लेने की जरूरत होती है। यह इस्ट्रोजन हामोन के संतुलन के लिए जरूरी होता है। पिल्स के कारण शरीर में इस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा विटामिन-6 लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स के लिए भी आवश्यक होता है। डाइट में केले को जरूर जगह दें।

फोलेट एक ऐसा आवश्यक तत्व है जिसे फैमिली डाइट में शामिल करना जरूरी है। सावुत अनाज, पतेदार सब्जियां जैसे पालक, मैथी, सहजन की पतियां, भिड़ी और फल जैसे केला, खरबूजा व तरबूज, दाल, मशरूम, टमाटर व संतरे के जूस में यह पश्चात मात्रा में उपलब्ध होता है। अपने भोजन में इन सबको किसी न किसी स्पू में शामिल करें।

सदियों में बनाए रखें खूबसूरती

सदियों में सबसे ज्यादा असर त्वचा पर पड़ता है।

इसलिए उसे अधिक से अधिक देखभाल की

आवश्यकता होती है।

सनबर्न होने पर- अगर आपका काम ज्यादातर धूप में धूमने का है तो ठंड के दिनों को दोपहर की धूप से आपको समर्टेन हो सकता है।

धूप में मौजूद अल्ट्रावायलो किरणें आपकी स्कीन की

ऊपरी परत को झुलसा देती है।

अगर सनबर्न ज्यादा हो गया हो

या फिर स्कीन पर लाल धब्बे हो गए हों या फिर उसका रंग काला हो रहा हो तो उसे दूर करने के लिए गुलाब जल को चेहरे पर लगाए। ये त्वचा को काफी ठंडक पहुंचाता है। गुलाब जल को एक स्प्रे करने वाली बोतल में डालें या फिर टिशू पेपर की सहायता से थाप्पतापते हुए लगाएं।

बाद में खीरा, आलू और नीबू का स्व

मिलाकर थोड़ा-सी मुलतानी मिट्टी डालकर पतला पेस्ट बनाएं और

उसे इफेक्टेड एप्लिया पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद हल्का गीला

करके मसाला करें, फिर ठंडे पानी से धो लें।

इससे सनबर्न के

निशान हटके होंगे।

सुपर फ्रेशेनस- इन दिनों में त्वचा के रूखेपन से आप डल

लगाने लगते हैं। ऐसे में फ्रेशेनस के लिए जरूरी है कि ऐसे प्रोडक्ट

का इस्तेमाल करें, जिससे आप

ताजगी के साथ नहींन पान का भी

एहसास कर आप ऐसा जेल लैं, जिसमें

पिपरमेंट की खुशबू हो।

जब भी आप इस

जेल का इस्तेमाल करेंगी तो आपको सुपर फ्रेशेनस

महसूस होगी।

स्कीन के डेंड सेल्स हटाने के लिए लूफा का

इस्तेमाल करें।

चेहरे के दाग-धब्बे- चेहरे पर दाग-धब्बे हैं तो उन्हें

हटाने के लिए थोड़ा ऑरेंज ज्यूस लेकर उसमें कपड़े को

डिप करें, फिर उसे अच्छी तरह निचोड़कर अपने चेहरे पर

लगाए।

इसमें विटामिन सी होता है, जो आपकी त्वचा

में चमक ला देता।

बहुत सी महिलाओं को पेट के बल सोने की

आदत होती है।

इससे उक्का चेहरा तकिए पर उल्टा

खो रहे से चेहरे के आसपास निशान निकल आते हैं, जो

देखने में खद्दे लगते हैं।

इन्हें दूर करने के लिए इन पर कंसीलर की

बूंदें लगाएं, जिससे निशान हटके होंगे।

भूल को स्वीकारना बड़प्पन की निशानी

हम सभी कभी भूल करने के अनुभव से गुजरते हैं परंतु सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते कि हमारी किसी भूल से किसी दूरेरे या हमें

स्वयं कितनी टेस पहुंची है। जब भूलों की कठिनाई जुड़ती है तो उनकी बढ़ावी संभवा देख कर सहज अदाजा लाया जा सकता है कि हम में एक ही

बात मुख्य रूप से समाई है कि अपनी भूल को स्वीकार न करते हुए, स्वयं को सही समित करने के लिए अड़े रहना। हम असर बच्चों को उनकी

गलती के लिए डांटते भी हैं और उनके उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।

स्वयं को उत्तरावाले भी रहने के लिए उनकी सहायता करते हैं।</

निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने की पति की दीर्घायु की कामना

चांद के दर्शन कर पति का मुंह चलनी में देख खोला व्रत

सांगापुर। नगर सहित आस पास के क्षेत्र की सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर करवा चौथ का निर्जला व्रत किया कई महिलाएं के द्वारा। 2 दिन पहले से ही इस व्रत की जोरदार तैयारी शुरू कर दी गई है।

बताया जाता है की यह व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है महिलाओं का यह प्रमुख व्रत है जो स्पूर्ण भारत में हिंदू महिलाओं द्वारा पूर्ण ऋद्धा एवं उत्तरास के साथ अपने पति की रक्षा व दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है इस दिन महिलाएं न कुछ खाती हैं और ना पानी पीती हैं कुहस्त के बाहर से मिट्टी का करवा टोटी वाला लार पानी से धोकर उसमें जल भरा जाता है जिसमें थोड़ा सा कच्चा दूध इलायची लौंग पान सुपारी खाक बदाम कोलकुंभी की फुल पत्ता तथा रुफ्या डालकर रात्रि को भर जाता है मैदा के 10 खाजे पापड़ी करवे पर रखकर आठे का दीपक जलाते मैदा की पपड़ी पर पांच मीठे भजिए रखे जाते



मिट्टी से बनाई गई दशरथीं माता चतुर्थी की मूर्ति का श्रूंगार करके पूजा करने का स्थान पर पटले पर बिटाई जाती है कई महिलाएं दशरथी के दिन दो दोनों में जवारे बोए जाते हैं जिन्हें प्रतिदिन पानी से खेंचोंचा जाता है उन्हें दशरथी माता की मूर्ति की दोनों तरफ रखे जाते हैं उनकी भी पूजन करते हैं रात्रि को दशरथी माता जवारे तथा करवा

आज के इस बदलते परिवेश की

रखकर उसके विधि पूर्वक पूजन है अधिकर देखने में सुनने में साथ पति भी व्रत रखने लगे हैं इनमें नहीं पतियों के द्वारा पतियों को गिरफ्त स्वरूप तोहफे भी भेंट किए जाने लगे क्योंकि यह पति और पति का एक अनोखा ही व्रत है व्रत कथा में पति अपने पति के गए प्राण को वापस लाई थी।

कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुआ सानुक्तिक गायन

रायसेन। नवम्बर माह के प्रथम कार्य दिवस पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय बैंड-मारतम एवं राष्ट्रगान जन-गण-मन का सामर्थीय संगीत संस्कृत एवं दृश्य कलेक्टर श्री गुलाब सिंह बघेल एवं संस्कृत संगीत द्वितीय कलेक्टर श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव सहित

अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

समारोह में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अपनी प्रस्तुति के माध्यम से अपनी निर्वाचन 2023 में मतदान जरूर करने का संदेश दिया गया। इस दौरान सीएम राजेंद्र स्कूल एवं शासकीय कर्मचारियों द्वारा उच्चतम शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां



राजगढ़। जिले में एक नवकर को होश्याला और उगंग के साथ मध्यप्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह जिला मुश्यालय स्थित स्टेडियम प्रामाण में आयोजित किया गया। जहां कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित ने राष्ट्रीय ध्वनि परामर्शदाता द्वारा उपस्थिति दिलाई।

कार्यक्रम में राष्ट्रगान एवं मध्यप्रदेश गान के साथ ही स्कूली बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर पुनित अधीक्षक श्री धर्मराज सिंह मीनाप सीईओ जिला पंचायत श्री अक्षय तेव्राल एवं अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मण्ड राहण एवं एसडीएम श्री गुलाब सिंह बघेल एवं संस्कृत संगीत द्वितीय कलेक्टर श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव सहित

अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

समारोह में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अपनी प्रस्तुति के माध्यम से अपनी निर्वाचन 2023 में मतदान जरूर करने का संदेश दिया गया। इस दौरान सीएम राजेंद्र स्कूल एवं शासकीय कर्मचारियों द्वारा उच्चतम शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।


छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय शिक्षक श्री मुकेश पिलोटिया ने किया।

छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शासकीय श

मतदाताओं से चुनाव में लुभावने वाले कर भूल जाते हैं नेता

आज भी नगर सहित आसपास के गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव



भगवान सिंह उमठ

नरसिंहगढ़ चुनाव आते ही सभी प्रत्याशी रसगुल्ले की तरह नरम और मिठ्ठे बन कर मदताता के बीच कई लुभावने वादों के साथ चुनाव जीतने हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। मगर हकीकत की बात कोई नहीं करता नगर सहित आस पास के गावों में आज भी कई मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे वक्त से जनमानस तरस रहा है और इन सभी मुद्दों को चुनावी वादे बना कर सिर्फ चुनाव जीते जाते हैं मगर धरातल पर कोई काम होता नजर नहीं आता। और कुछ बड़े प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले किए जाते हैं और वक्त के साथ अपनी जेब भर कर जांच के नाम पर सब भला दिए जाते हैं।

जाच के नाम पर सब मुत्तु दृष्टि जात है।
नरसिंहगढ़ नगर में बड़ा हॉस्पिटल
बनाया गया मगर आज भी डॉक्टर की
कमी बनी हुई है। लोगों को सामय पर
स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती मजबूर होकर
प्राइवेट इलाज करना पड़ता है ये बाहर
जाकर इलाज करवाना होता है सबसे
ज्यादा परेशान ग्रामीण क्षेत्र इलाज कारने
लोगों को होती है ऐसी शिकायत नरसिंग
हॉस्पिटल आए दिन मिलती रहती है।
केंद्रीय विद्यालय की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हुए

कई वर्ष गुजर गए पर अभी तक केंद्रीय
विद्यालय शुरू नहीं हो पाया।
नरसिंहगढ़ हाईवे पर ओवर ब्रिज सेक्षण
होने के बावजूद और जल्सरत होने के
बावजूद आज तक इस और किंवा
प्रतिनिधि की ओर से ध्यान नहीं दिया
गया। नरसिंहगढ़ में मूलभूत सुविधा न होने
के कारण नगर को आज तक पर्यटन
स्थल घोषित नहीं किया गया।

नगर में रात्रि आश्रय के लिए ऐसे

बसेरा भी नहीं बनाया गया।

नगर में आज तक नल जल योजना का ठीक से क्रियान्वन भी नहीं हुआ और नगरपालिका द्वारा पर 200/- प्रति माह का शुल्क लाद दिया । देखा जाए तो अन्य किसी भी क्षेत्र में 200/- जल कर शुल्क नहीं है। प्रत्येक चुनाव में जल कर कम करने का बादा सभी उम्मीदवारों द्वारा किया जाता है मगर कुर्सी मिलने के बाद सब चुप हो कर सड़क कार्य अभूतपूर्ण और अस्मरणीय कार्य किए गए।

आखिर कब तक जनता से वादे के सहरे प्रत्याक्षी चुनाव जीतते रहेंगी तभी तो मतदाता उदास मन से कहता है एक बोट डालना है किसी को भी दे देंगे कहीं ऐसा बक्त न आ जाए की जनता चुनाव का बहिष्कार करने को मजबू हो जाए।

विधानसभा चुनाव के अंतर्गत राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

चैकिंग के दौरान मोटर साइकिल चोरी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश



नोकटिन की प्रकाश गत्ताव

लाक्ष्मीपुर, राजगढ़ |
जिले में विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 के अंतर्गत लगातार चैकिंग अभियान चलत्या जा रहा है। इसका उद्देश्य विधानसभा के नियमों का विरुद्ध इस्तानाया के 02/23 धारा 41(1-4) जाफौ , 379 भादवि का तैयार किया गया।

रहा है जिसमे जिला पुलिस काशन के द्वारा जिले में संपत्ति संबंधी अपराध रोकने के संबंध में लगातार निर्देशित किया जा रहा है इसी क्रम में थाना माचलपुर की पुलिस टीम ने मोटरसाइकल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़कर उनके कब्जे से कुल 10 मोटर सायकिलें जप्त की हैं।

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज सिंह

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी आनंद राय के मार्गदर्शन में लगातार मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर विधानसभा चुनाव के चलते अस्थाई नाके स्थापित कर लगातार वाहन चैकिंग की जा रही है।

धनगढ़, आर विष्णु जाट, आर श्याम पाटीदार, आर रविकांत, आर. नीरज रघुवंशी, आर. तुलसीराम दागी, आर दुलीचंद, आर नरेन्द्र सिंह झाला, आर रवि जाट, आर मिथुन, आर 689 श्रीकांत शुक्ला का सराहनीय योगदान रहा। जस की गई मोटर सायकलों के नंबर, वाहन-

इसी तारतम्य में 31 अक्टूबर मंगलवार को बायपास रोड माचलपुर गोधटपुर हाइवे रोड गुर्जर धर्मशाला के पास वाहन चैकिंग कर रहे थे कि वाहन चैकिंग के दोरान एक व्यक्ति गोधटपुर तरफ से एक मोटर साईकल एचएफ डीलक्स बिना नम्बर के आया जिसको रोक कर चैक किया गया जिससे गाड़ी के कागजात के बारे में पुछा गया तो नहीं होना बताया हिकमातमली से पुछताछ किया तो गाड़ी को खुजनेर से चोरी करना बताया गया जिससे गाड़ी चोरी की होने के सदैह से आरोपी का कृत्य जुर्म धारा 41(1-4) जाफौ ,379 भादवि का पायें जाने से आरोपी से मोटर साईकल बिना नम्बर की ब्लैक स्लैटी कलर की एचएफ डीलक्स जिसका चैंचिंस नम्बर MBLHAC040L9F00506 व इंजन नम्बर HA11ERL9F00212 को जप्त किया

पैंशनर्स का दशहरा मिलन समारोह, सामूहिक जन्मोत्सव के साथ संपन्न

प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशनर हितेषी योजनाओं की दी जानकारी



शरनस तथ्यनारायण शर्मा, गंगामा
म सिरोलिया संघ उपाध्यक्ष, दुर्गा
साद त्रिवेदी, श्रीमती लक्ष्मीकांत
क्सेना, लक्ष्मी चंद्र शर्मा इन
दस्यो का सामूहिक जन्मोत्सव
नाया गया। शेष अनुपस्थि सदस्यों
मोबाइल के माध्यम से बधाई
भक्तामाना दी गई।

नंदकिशोर सोनी ने सभी को स्पे
द्वारा, सम्मानित करते हुए संपूर्ण
वातावरण को सुगंधित इत्र से
महका दिया। इस अवसर पर
स्वागत भाषण देते हुए शाखा
अध्यक्ष त्रिकारा ने दशहरा पर्व की
शुभकामना देते हुए उनके स्वस्थ
और दीर्घायु सुखी जीवन की
कामना की।

विशेष अतिथि के रूप में
उपस्थित भारतीय स्टेट बैंक
प्रबंधक संदीप शर्मा एवं उपस्थित
स्टाफ ने पेंशनर्स हितेषी कई

योजनाओं को बताया तथा उ
समस्याओं को भी सुना।
नवंबर में सभी पेंशनर्स
जीवित प्रमाण पत्र संबंधित
शाखा में प्रस्तुत करना अनि
होता है सभी को फार्म वि
करते हुए निर्धारित समय
प्रस्तुत करने बाबत बताया
पेंशनर्स को किसी भी तरह
कोई परेशानी नहीं आएगी
आश्वस्त किया। इस अवसर
वरिष्ठ पेंशनर पंडित सत्यनारा
शर्मा काका जी ने कहा राव

अनेक चारित्रिक बुराइयाँ थीं जबकि भगवान् राम सर्वगुण संपन्न, सदुणों के भंडार थे उन्होंने नवदुर्गा से प्रदत् शक्तियों के प्रभाव से रावण के संपूर्ण परिवार का नाश किया था यह दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जोशी ने संघ गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए सक्रिय, गतिशील बताया। कार्यक्रम का संचालन शाखा अध्यक्ष ने किया आभार सेवा निवृत्त ब्लाक विकासखंड शिक्षा अधिकारी उमाशंकर दुबे ने व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रेम शंकर पांडे, कन्हैयालाल वर्मा, राधेश्याम शर्मा जुगल किशोर दुबे कैलाश नारायण शर्मा रामनारायण टेट्वाल, मणि शंकर पटीदार विद्याधर कुंभकार, डॉ केके शर्मा, ग्यारसी राम कुलरिया, रमेश चंद गुजरिया कोषाध्यक्ष, श्री वल्लभ सोनी, प्रेम नारायण पुष्पद, लक्ष्मी नारायण शर्मा, श्रीमती आशा दुबे, निर्मला सोनी, आशा हुकुम सोनी, सिद्धू प्रसाद धनगर आदि कई पेंशनर्स उपस्थित थे।

कृषि विकास के साथ लघु उद्योगों का होगा विकास : पुरषोत्तम दांगी

व्यावरा। विधानसभा में कृषि विकास के असीम अवसर हैं। जरुरत केवल उद्देश प्रोत्साहित किये जाने की है। भाजपा सरकार का किसानों की आय दुगाना किये जाने का बाद झुटाए साथित हुआ है। कांग्रेस सरकार आने के बाद कृषि को उन्नत किये जाने के साथ लघु उद्योगों का विकास होगा।



टोंका, बिस्योनिया आदि ग्रामों का दोरा किया गया। सभी को मुफ्त मिलेगी शिक्षा प्रत्याशी श्री दांगी ने ग्रामीण जनों को बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा के जी से पी जी तक मुफ्त शिक्षा प्रधान की जाएगी। इसके अलावा समाज के हर वर्ग के लिए कांग्रेस ने बादे किये हैं ए उन्हें पूरा किया जायेगा। इस मार्के पर विधायक रामचंद्र दांगी, विजयबहादुर सिंह, मोहन थोथी, महेंद्र यादव, कृष्ण पाल सिंह सहित बड़ी ख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।